



# झारखण्ड गजट

## साधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 6 राँची, बुधवार, 14 चैत्र, 1940 (श०)  
4 अप्रैल, 2018 (ई०)

#### विषय-सूची

पृष्ठ

पृष्ठ

**भाग 1**—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी 49- 56

और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।

**भाग 1-क**—स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

**भाग 1-ख**—मैट्रिकुलेसन, आई.ए., आई.एस.सी., बी.ए., बी.एस.सी., एम.ए., एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस., बी.सी.ई., डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

**भाग 1-ग**—शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा

**भाग-2**—झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

**भाग 3**—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएँ और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

**भाग-4**—झारखण्ड अधिनियम

**भाग-5**—झारखण्ड विधान-सभा में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

**भाग-7**—संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

**भाग-8**— भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

**भाग-9**— विज्ञापन ---

**भाग-9-क**—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएँ

**भाग-9-ख**—निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक--

...

...

पूरक "अ"

...

...

## भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

23 जनवरी, 2018

संख्या-13/वरीय नि० सं०-38/2015 का०- 672-- श्री धरनीधर दास गुरु, सेवानिवृत्त अपर न्यायायुक्त, खूँटी को झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2001 के नियम-7(a) के आलोक में उनके झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में अपर जिला न्यायाधीश के पद पर प्रोन्नति के पश्चात् प्रभार ग्रहण की तिथि से रु० 500/- (पाँच सौ रुपये मात्र) की वेतनवृद्धि की स्वीकृति दी जाती है ।

2. श्री गुरु की झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में प्रोन्नति की तिथि 11 अगस्त, 2001 है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अखौरी शशांक सिन्हा,

सरकार के उप सचिव ।

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

-----  
अधिसूचना

9 मार्च, 2018

संख्या-01/नि०स्था०1007/2013-1067/रा.,-- झारखण्ड निबंधन सेवा के निम्नलिखित पदाधिकारी जिनकी नियुक्ति परीक्ष्यमान अवर निबंधक के रूप में उनके नाम के समक्ष स्तम्भ-3 में अंकित विभागीय अधिसूचना द्वारा की गयी है, की सेवा उनके योगदान की तिथि स्तम्भ-4 के आलोक में स्तम्भ-5 में अंकित अंतिम विभागीय परीक्षा पास करने की तिथि के प्रभाव से सम्पुष्ट की जाती है :-

क्र.	नाम/पदनाम	नियुक्ति की अधिसूचना संख्या/दिनांक	योगदान की तिथि	सम्पुष्टि की तिथि
1	श्री ओलिभा एक्का, अवर निबंधक, गोला (रामगढ़)	अधिसूचना संख्या-134, दिनांक-07.02.2013	11.02.2013	30.05.2017
2	श्री मनोज टुडू, अवर निबंधक, बरही (हजारीबाग)	अधिसूचना संख्या-134, दिनांक-07.02.2013	13.02.2013	30.05.2017

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राम कुमार सिन्हा,**  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

-----

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

16 मार्च, 2018

**संख्या-09/आरोप-राँची-156/2017-1135--** श्री राजीव रंजन, तत्कालीन अंचल निरीक्षक, रातू अंचल सम्प्रति सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा CBI/EWO/Ranchi Case No.-RC04 (S)/2014 में की गई अनुशंसा के आलोक में जिला स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक-178 (i) दिनांक 3 नवम्बर, 2017 द्वारा श्री रंजन के द्वारा दाखिल-खारिज प्रक्रिया के नियम विरुद्ध अपने पद का दुरुपयोग करते हुए स्वार्थ लाभ हेतु नामांतरण की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करने के प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के संबंध में आरोप प्रपत्र-‘क’ उपलब्ध कराया गया है ।

2. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्री रंजन के विरुद्ध प्रपत्र ‘क’ में गठित आरोपों की जांच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-16 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है ।

3. तदनुसार एतद द्वारा श्री रंजन को ओदश दिया जाता है कि इस अधिसूचना के प्राप्त होने की तिथि से एक पक्ष के अंदर नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना लिखित बचाव/बयान प्रस्तुत करें ।

4. श्री रंजन द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किये जाने वाले लिखित बचाव/वयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जायेगा, उन आरोपों की जांच के लिए श्री विनोद चंद्र झा, भा.प्र.से. (से.नि.) विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

5. श्री रंजन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अंचलाधिकारी, रातू अंचल, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

आदेश

23 मार्च, 2018

**संख्या-09/आरोप-दुमका-85/2015-1296--** मो० ईमाम हसन खाँ, अंचल निरीक्षक, शिकारीपाड़ा, दुमका द्वारा के विरुद्ध अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने एवं सरकारी कार्यों में लापरवाही बरतने के आरोप में विभागीय आदेश सं०-2163, दिनांक 2 मई, 2017 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, दुमका को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालन पदाधिकारी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध अभिलेखों के समीक्षोपरांत विभाग के निर्णयानुसार श्री खाँ को "असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित करते हुए उनके विरुद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही निस्तारित की जाती है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राम कुमार सिन्हा,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

26 मार्च, 2018

**संख्या-2/राज०स्था०(निबंधन)-46/17-1324(2)--** श्री सुभाष कुमार दत्ता, प्रभारी जिला अवर निबंधक, हजारीबाग को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 227, 230 एवं 248 के आलोक में दिनांक 2 अप्रैल, 2018 से दिनांक 6 मई, 2018 तक कुल 35 (पैंतीस) दिनों तक उनकी कैन्सर पीड़ित माताजी के सेवा एवं उचित देखभाल हेतु उपार्जित अवकाश उपभोग करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

राम कुमार सिन्हा,  
सरकार के संयुक्त सचिव ।

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

21 मार्च, 2018

**संख्या-01/नि.स्था.-104/11 - 215/नि.,--** भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 (15/1872) की धारा 6 एवं 9 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, रेव्ह प्रभात कुमार नन्दी, पिता-स्व० प्रशन्नो कुमार नन्दी, ग्राम-दुमसाटोली, पो०-चुटिया, जिला-राँची, झारखण्ड को भारतीय ईसाई धर्मावलंबियों के बीच विवाह अनुष्ठान कराने तथा विवाह प्रमाण-पत्र देने हेतु विवाह निबंधक नियुक्त करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कमल किशोर सोन,  
सरकार के सचिव ।

## राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

27 मार्च, 2018

**संख्या-09/ आरोप-बोकारो-48/2016-1345--** रामनवमी, 2016 के अवसर पर जिला के संयुक्त आदेश ज्ञापांक-1218/गो., दिनांक 11 अप्रैल, 2016 के द्वारा दण्डाधिकारी के रूप में श्री अविनाश कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक, बोकारो सम्प्रति सहायक निबंधन महानिरीक्षक को माराफारी थाना सुरक्षित-सह-चलंत के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था परंतु श्री कुमार प्रतिनियुक्ति स्थल पर मात्र डेढ़ घंटा कर्तव्य पर उपस्थित रहे। उक्त थानान्तर्गत दो समुदायों के बीच दिनांक 15 अप्रैल, 2016 को रामनवमी के अवसर पर हिंसक घटना हुई, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हुई। विधि-व्यवस्था में लापरवाही संबंधी उक्त आरोपो में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-2858, दिनांक 26 सितम्बर, 2016 द्वारा गठित आरोप प्रपत्र 'क' कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक-10860, दिनांक 22 दिसम्बर, 2016 द्वारा इस विभाग को प्राप्त हुआ।

2. प्रपत्र 'क' में गठित आरोपों के संबंध में श्री कुमार से विभागीय पत्रांक-891/रा., दिनांक 17 फरवरी, 2017 द्वारा कारण-पृच्छा की गयी जिसका जवाब श्री कुमार ने अपने कार्यालय पत्रांक-371, दिनांक 10 अप्रैल, 2017 द्वारा विभाग को समर्पित किया।

3. श्री कुमार के कारण-पृच्छा के जवाब पर विभागीय पत्रांक-2215/रा., दिनांक 4 मई, 2017 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से मंतव्य की मांग की गयी एवं पत्रांक-3436/रा., दिनांक 4 जुलाई, 2017 तथा पत्रांक-4540/रा., दिनांक 6 सितम्बर, 2017 द्वारा स्मारित किया गया। उक्त के क्रम में उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-3214/गो., दिनांक 28 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री कुमार को लिखित चेतावनी के साथ स्पष्टीकरण से मुक्त करने की अनुशंसा की गयी।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र 'क' में गठित आरोप, श्री कुमार का स्पष्टीकरण एवं इसपर उपायुक्त, बोकारो के मंतव्य के सम्यक समीक्षोपरांत श्री कुमार को विधि-व्यवस्था कार्यों में भविष्य में और अधिक सजग रहने की चेतावनी संसूचित करते हुए मामले को निष्पादित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**राम कुमार सिन्हा,**  
सरकार के संयुक्त सचिव।

**HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI**

-----  
**Notification**  
**13<sup>th</sup> March , 2018**

**No. 65 A: Memo.no. 1248--** Sanction is accorded in favour of Sri Mithilesh Kumar Singh, Secretary DLSA, Bokaro for encashment of (NIL+26+30=) 56 days unutilized Earned Leave equivalent to 56 days leave salary admissible for the block years 26 April, 2011 to 25 April, 2013, 26 April, 2013 to 25 April, 2015 and 26 April, 2015 to 25 April, 2017 under Rule(s) 227, 228, & 240 (c) of Jharkhand Service Code and Proviso IX of the State Government Resolution No.6/Est. Vividh 7/2006 Ka 4598/Ranchi dated 29th August, 2006.

By order of the Court,

**Rajesh Kumar Vaish**  
Registrar (Administration).

-----  
**HIGH COURT OF JHARKHAND, RANCHI**

-----  
**Notification**  
**13<sup>th</sup> March , 2018**

**No. 66 A: Memo no. 1251-** Earned Leave for 13 days for the period from 26 November, 2017 to 8 December, 2017 suffixing 9 December, 2017 & 10 December, 2017 being holiday is granted to Sri Shyam Nandan Tiwari, Additional Judicial Commissioner-VIII, Ranchi under Rule(s) 227, 228 & 240 ( c ) of the Jharkhand Service Code.

By order of the Court,

**Rajesh Kumar Vaish**  
Registrar (Administration).